

## मिलावटी देशी घी की फैक्ट्री पकड़ी, मालिक गिरफ्तार



Publish Date: Fri, 25 Dec 2020 12:28 AM (IST) Author: **Jagran**

*एसपी आवास व पुलिस लाइन के नजदीक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) में नकली घी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ।*

बागपत, जेएनएन। एसपी आवास व पुलिस लाइन के नजदीक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) में मधुसूदन ब्रांडनेम की आइ में मिलावटी देशी घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में मिलावटी घी व अन्य सामग्री बरामद की।

मधुसूदन कंपनी नोएडा के विजिलेंस अफसर जितेंद्र सिंह ने बताया कि बागपत में उनकी कंपनी के ट्रेडमार्क पर मिलावटी देशी घी बनाने की जानकारी मिली। जितेंद्र सिंह और कंपनी अधिवक्ता नीरजपाल को साथ लेकर पुलिस ने बुधवार शाम यूपीएसआइडीसी सरिया डी-30 में आविका डेयरी फूड्स पर छापा मारा। यहां पैकिंग पर मधुसूदन घी के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर नकली घी तैयार किया जा रहा था। करीब एक हजार लीटर घी प्लास्टिक डिब्बों की पैकिंग में मिला, जिन पर मिलते जुलते ब्रांडनेम-लार्ड मधुसूदन, मधुसुगंध, मधुधर व मधुलाल अंकित हैं। 14 बोरे खाली रैपर, खाली गते, 28 रोल प्लास्टिक पॉली पैक बरामद हुए।

फैक्ट्री मालिक गौतम निवासी बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) देशी घी बनाने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। आरोपित के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोतवाली एसएसआइ प्रदीप कुमार शर्मा का कहना है कि फैक्ट्री मालिक गौतम को गिरफ्तार कर गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। घी के तीन नमूने लिए गए

खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी चितरंजन ने बताया कि फैक्ट्री से घी के तीन नमूने लिए गए हैं। इन्हें जांच के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। वनस्पति व रिफाइंड से करते थे तैयार

कंपनी के विजिलेंस अफसर जितेंद्र सिंह ने बताया कि यहां वनस्पति घी, रिफाइंड व केमिकल से पिछले छह साल से नकली देशी घी बना रहा था। पहले फैक्ट्री मालिक गौतम बुढ़ाना में और अब पिछले दो साल से बागपत में किराये की बिल्डिंग में नकली देशी घी की फैक्ट्री चला रहा था। किसी को पता न चले, इसलिए फैक्ट्री के गेट पर ताला लगा रहता था। कर्मचारी अंदर काम करते थे।

**Source :** <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-fake-ghee-factory-21201926.html>